

बिना गारंटी वाले जीवन में, निश्चित लाभ पाएं।



एचडीएफसी लाइफ संचय प्लस

नॉन-पार्टिसिपेटिंग, नॉन-लिंक्ड सेविंग्स इश्योरेंस प्लान

इस पत्रक का लक्ष्य है गारंटीड आय विकल्प के लाभों की व्याख्या करना।

अन्य उपलब्ध विकल्पों पर अधिक जानकारी के लिए, कृपया अन्य पत्रक और सेल्स ब्रोशर देखें।


एचडीएफसी लाइफ संचय प्लस आपके और आपके परिवार के लिए गारंटीड रिटर्न प्रदान करता है जिससे आपके जीवन के प्रमुख जीवन चरण जैसे शादी, पितृत्व, सेवानिवृत्ति, आदि को सुरक्षित किया जा सकता है।



प्रमुख विशेषताएं और लाभ – गारंटीकृत आय विकल्प

- गारंटीकृत¹ आय लाभ 12 भुगतान विकल्प के लिए भुगतान किए गए से दोगुने से अधिक की पेशकश करता है।
- ₹ 1,50,000 से अधिक वार्षिक प्रीमियम के साथ पॉलिसियों के लिए बढ़ा हुआ लाभ²।
- कर लाभ³ – आप मौजूदा कर कानूनों के अनुसार कर लाभ के पात्र हो सकते हैं।
- वैकल्पिक राइडर्स – अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर राइडर विकल्पों के साथ अपनी सुरक्षा कवरेज बढ़ाएं।

प्लान कैसे काम करता है



एपी = एनुअलाइज्ड प्रीमियम

नमूना चित्रण

स्वस्थ पुरुष के लिए लाभ का चित्रण जो प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान प्रति वर्ष 1 लाख + कर का भुगतान करता है और पॉलिसी अवधि में जीवित रहता है।

उम्र	बीमा राशि	प्रारंभ में मृत्यु लाभ ⁵	पॉलिसी अवधि (वर्ष)	प्रीमियम भुगतान अवधि (वर्ष)	परिपक्वता लाभ
35 वर्ष	12,00,000	14,96,586	13	12	₹ 2,09,000 की आय की गारंटी ⁴ 14 वें वर्ष से 25 वें वर्ष तक (12 वर्ष की भुगतान अवधि)
55 वर्ष	10,25,000	13,89,176	13	12	₹ 1,94,000 की आय की गारंटी ⁴ 14 वें वर्ष से 25 वें वर्ष तक (12 वर्ष की भुगतान अवधि)

ए. प्रीमियम लागू करें और लेवी से अलग है। बी. दिखाए गए मूल्य केवल उदाहरण के लिए हैं। विस्तृत चित्रण के लिए, कृपया हमारे मध्यस्थ से बात करें।

कृपया लाभ और शर्तों के विवरण के लिए उत्पाद विवरणिका देखें।

अधिक जानकारी के लिए बिक्री विवरणिका देखें

¹ बशर्ते सभी देय प्रीमियम का भुगतान किया गया हो और पॉलिसी लागू हो।

² अधिक जानकारी के लिए, कृपया बिक्री विवरणिका में "उच्च प्रीमियम पॉलिसियों के लिए उन्नत लाभ" सेक्शन देखें।

³ आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार। कर लाभ कानूनों में परिवर्तन के अधीन हैं।

⁴ वार्षिक आवृत्ति पर भुगतान अवधि (पॉलिसी अवधि के बाद) के दौरान बकाया में देय गारंटीड आय राशि।

⁵ कृपया वर्षवार मृत्यु लाभ के लिए लाभ चित्रण देखें।

परिपक्वता लाभ:

यह विकल्प आपको सभी देय प्रीमियम के भुगतान और पॉलिसी अवधि में लाइफ़ एश्योर्ड सर्वाइविंग पर 10 या 12 साल की फिक्स्ड टर्म के लिए गारंटीड आय के रूप में परिपक्वता लाभ का भुगतान करता है।

पेआउट अवधि के दौरान किसी भी समय, आपके पास एकमुश्त के रूप में भविष्य की आय प्राप्त करने का विकल्प होगा, जो भविष्य के भुगतान का वर्तमान मूल्य होगा, जिसपर मौजूदा ब्याज दरों का उपयोग करके गणना की गई दर पर छूट दी गई है।

भुगतान अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर, नामित व्यक्ति को भुगतान अवधि के अंत तक चुने गए आय भुगतान आवृत्ति और लाभ विकल्प के अनुसार गारंटीड आय प्राप्त करना जारी रखेगा।

मृत्यु लाभ:

पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में, मृत्यु पर बीमित राशि के बराबर मृत्यु लाभ नामांकित व्यक्ति को देय होगा।

मृत्यु पर बीमित राशि इसपर उच्चतम है:

- वार्षिक प्रीमियम⁶ का 10 गुना, या
- भुगतान किए गए कुल प्रीमियम का 105%, या
- भुगतान किए गए प्रीमियम पर वार्षिक 5% प्रतिवर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज संचय, या
- परिपक्वता पर बीमित राशि का गारंटीड, या
- मृत्यु पर भुगतान की जाने वाली पूर्ण राशि, जो बीमित राशि के बराबर है।

बीमित राशि वार्षिक प्रीमियम के लागू मृत्यु लाभ गुणकों के बराबर होगी। कृपया लागू होने वाले मृत्यु लाभ गुणकों के लिए बिक्री विवरणिका देखें।

इस विकल्प के तहत, परिपक्वता पर सुनिश्चित बीमित राशि भविष्य के भुगतान का वर्तमान मूल्य होगा, 9% प्रतिवर्ष की दर से छूट दी जाएगी।

मृत्यु लाभ के भुगतान पर, पॉलिसी समाप्त हो जाती है और आगे कोई लाभ देय नहीं होता।

इनकम पेआउट

आपके पास कम आवृत्ति अंतराल वाले गारंटीड आय विकल्प के तहत वार्षिक आय प्राप्त करने का विकल्प है यानी अर्ध-वार्षिक, त्रैमासिक, मासिक। कृपया अधिक विवरण के लिए विवरणिका देखें।

राइडर विकल्प

हम आपकी सुरक्षा बढ़ाने में आपकी मदद के लिए निम्नलिखित राइडर विकल्प प्रदान करते हैं

– एचडीएफसी लाइफ़ इनकम बेनिफ़िट ऑन एक्सिडेंटल डिसेबिलिटी राइडर (UIN: 101B013V03))

– एचडीएफसी लाइफ़ क्रिटिकल इलनेस प्लस राइडर (UIN: 101B014V02)

*राइडर्स के सभी विवरणों के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध राइडर ब्रोशर देखें

पात्रता		
पात्रता मापदंड	न्यूनतम	अधिकतम
प्रवेश पर आयु (अंतिम जन्मदिन)	5 ⁸ वर्ष	60 वर्ष
परिपक्वता पर आयु (अंतिम जन्मदिन)	18 वर्ष	73 वर्ष
पॉलिसी अवधि (पीटी) और प्रीमियम भुगतान अवधि (पीपीटी)	11 वर्ष पीपीटी के लिए 10 वर्ष 13 वर्ष पीपीटी के लिए 12 वर्ष	
भुगतान अवधि	पीपीटी के लिए 11 वर्ष: 12 वें से 21 वें वर्ष तक बकाया राशि में गारंटीड आय पीपीटी के लिए 13 वर्ष: 14 वें से 25 वें वर्ष तक बकाया राशि में गारंटीड आय	
न्यूनतम प्रीमियम	वार्षिक: ₹30,000, छमाही: ₹15,000, त्रैमासिक: ₹7,500, मासिक: ₹2,500	
अधिकतम प्रीमियम	कोई सीमा नहीं, बोर्ड अनुमोदित अंडर राइटिंग पॉलिसी (बीएयूपी) के अधीन	

ऊपर वर्णित सभी उम्र अंतिम जन्मदिन हैं।

आज ही संपर्क करें

☎ **खरीदने के लिए 1800-266-9777** (टोल फ्री)
(सभी दिन सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक उपलब्ध)

🌐 **www.hdfclife.com पर विज़िट करें**



*नॉन पीओएस वेरिएंट के लिए

⁶ वार्षिक प्रीमियम पॉलिसीधारक द्वारा चुने गए एक वर्ष में देय प्रीमियम राशि होगी, जिसमें कर, राइडर प्रीमियम, अंडर राइटिंग अतिरिक्त प्रीमियम और मॉडल प्रीमियम के लिए लोडिंग छोड़कर, यदि कोई हो।

⁷ कुल प्रीमियम भुगतान का अर्थ है कुल प्राप्त सभी प्रीमियम, कोई भी अतिरिक्त प्रीमियम, कोई भी राइडर प्रीमियम और कर छोड़कर।

⁸ जोखिम कवर नाबालिगों सहित सभी लाइव्स के लिए पॉलिसी के प्रारंभ होने की तारीख से शुरू होता है। नाबालिग लाइफ़ के मामले में, पॉलिसी जीवन बीमित के 18 वर्ष की आयु होने पर निहित होगी।

एचडीएफसी लाइफ़ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ("एचडीएफसी लाइफ़"). CIN: L65110MH2000PLC128245. आईआरडीएआई रजि. नं. 101.

रजिस्टर्ड ऑफिस: लोढ़ा एक्सेलस, 13वीं मंजिल, अपोलो मिल्स कम्पाउंड, एन. एम. जोशी मार्ग, महालक्ष्मी, मुंबई - 400 011.

ईमेल: servicehdfclife.com, फोन नं: 1860 267 9999 (सोम-सुबह 10 से शाम 7 बजे) स्थानीय शुल्क लागू। किसी भी देश का कोड न लगाएं। जैसे +91 या 00. वेबसाइट: www.hdfclife.com.

कंपनी के नाम/लोगो में प्रयुक्त नाम/अक्षर "एचडीएफसी" हाउसिंग डेवलपमेंट फ़ायनांस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("एचडीएफसी लिमिटेड") से संबंधित हैं और एचडीएफसी लाइफ़ द्वारा इसका इस्तेमाल एचडीएफसी लिमिटेड के साथ किए गए एक अनुबंध के अंतर्गत किया गया है।

एचडीएफसी लाइफ़ संचय प्लस (UIN: 101N134V09) एक नॉन-पार्टिसिपेटिंग नॉन-लिंक्ड इश्योरेंस प्लान है। इस प्रोडक्ट में जीवन बीमा कवरेज उपलब्ध है। एक्सिडेंटल डिसेबिलिटी राइडर पर एचडीएफसी लाइफ़ इनकम बेनिफ़िट (UIN: 101B013V03, फॉर्म नं. R501-21-01) और एचडीएफसी लाइफ़ क्रिटिकल इलनेस प्लस राइडर (UIN: 101B014V02, फॉर्म नं. R501-23-01) राइडर्स के नाम हैं। जोखिम घटकों, संबंधित नियमों व शर्तों और वर्जित बातों की ज़्यादा जानकारी के लिए कृपया बिक्री पूर्व सेल्स ब्रोशर ध्यान से पढ़ें। ARN: MC/06/21/24043-HI.

भ्रामक फोन कॉल्ल तथा फर्जी/धोखाधड़ीवाले ऑफर्स से सावधान

- आईआरडीएआई इश्योरेंस पॉलिसियों की बिक्री, बोनस की घोषणा या प्रीमियम के निवेश जैसी गतिविधियों में शामिल नहीं होती है। अगर आपको ऐसे फ़ोन कॉल्ल आएँ, तो पुलिस में इसकी शिकायत करें।